

## प्रेस नोट -दिनांक 28.01.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना सहसो क्षेत्रान्तर्गत युवती का अपहरण करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी चकरनगर के नेतृत्व में एसओजी टीम इटावा व थाना सहसो पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती का अपहरण करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 26.01.2021 को थाना सहसो पुलिस को सूचना मिली कि एक बैगनआर कार बवाइन गाँव से शेरगढ़ गाँव को जोड़ने वाले यमुना नदी पर बने पीपे के पुल से नदी में गिर गयी है जिसमें कई लोग डूब गये हैं, इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा एक लड़की व दो लड़कों के शव को नदी से निकाला गया था । थाना सहसो पर दिनांक 26.01.2021 को ही वादी निवासी सिण्डौस थाना सहसो जनपद इटावा ने अपनी लड़की की गुमशुदगी दर्ज करायी थी । इसी क्रम में वादी द्वारा लड़की के शव को देखकर बताया कि यह मेरी लड़की है जिसे छुनमुन तिवारी व मयंक तिवारी आज ही समय करीब 02 बजे दिन में भगा कर ले गये थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे थे एवं जिसके सम्बन्ध में थाना सहसो पर मु0अ0सं0 07/2021 धारा 363/366ए भादवि0 पंजीकृत कराया था । इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.21 को थाना सहसो पुलिस द्वारा तीन लोगों को गिरफ्तार किया 1. मयंक तिवारी पुत्र अनिल तिवारी उर्फ गुड्डन तिवारी नि0 करावली थाना बिठौली जिला इटावा बताया 2. पवन उर्फ लाली पुत्र ब्रज बहादुर नि0 नीबरी थाना बिठौली इटावा हाल पता सतर्तेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया 3. विवेक बाजपेई उर्फ ईशू पुत्र राम कुमार बाजपेई नि0 खोरई थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद हाल पता सतर्तेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया

**पुलिस टीम द्वारा पूछताछ -** पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर मयंक तिवारी द्वारा बताया गया कि विवेक तिवारी उर्फ छुनमुन मेरा भाई है व मृतका लड़की से प्रेम करता था । उनकी आपस में काफी दिनों से बात-चीत होती थी । मेरा भाई अभी कुछ दिन पहले रायगढ़ से बाबा के मरने पर गाँव आया था जहाँ वह लड़की भी अपने रिश्तेदारी में आयी थी । दि0 26/01/2021 को मेरा भाई विवेक तिवारी उर्फ छुनमुन अपने दोस्त पवन उर्फ लाली व उत्पल पुत्र अजय कुमार पाण्डेय नि0 मोहल्ला सतर्तेश्वर थाना कोतवाली नगर औरैया की वैगन-आर कार से मेरी माँ व बहनो को औरैया से गाँव करावली लेकर आये थे जहाँ मेरे भाई ने बताया कि आज इसी गाड़ी से हम लोग लड़की को लेकर औरैया जायेंगे । मुर्गी फार्म के पास से हम लोग ने लड़की को भी गाड़ी में बिठा लिया और उसको लेकर औरैया की ओर चले गये । औरैया पहुंचने के बाद जब वापस भीकेपुर के रास्ते बवाइन गाँव थाना अयाना की ओर आये तभी बवाइन गाँव से शेरगढ़ गाँव की ओर जाने वाले यमुना नदी के पीपे के पुल पर अचानक हम लोगो की गाड़ी असन्तुलित होकर समय करीब 06.00 बजे शाम यमुना नदी में गिर गयी । तथा मैं किसी तरह गाड़ी के दरवाजे का शीशा तोड़ कर बाहर निकल कर पीपे पर खड़ा था तभी विवेक बाजपेई उर्फ ईशू भी बाहर

निकला जिसका हाथ मैने पकड़ कर खीच लिया जब कि अन्य लोग कार में ही डूब गये । कुछ देर बाद विवेक तिवारी उर्फ छुनमुन व वह लड़की बहती हुई निकली एवं विवेक तिवारी उर्फ छुनमुन नदी में आगे की ओर बहता हुआ चला गया अन्य सौरभ व उत्पल गाड़ी में ही फसे रह गये तभी वहा पहुंचे गाँव वालो ने मुझे व विवेक बाजपेई उर्फ ईशू को गाँव में ले आये और कुछ लोगो ने विवेक बाजपेई उर्फ ईशू के घर सूचना दी तब उसके घर वालो ने आकर हम दोनो लोगो को औरैया में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ से अच्छे इलाज के लिए कानपुर ग्लैक्सी हास्पिटल आवास विकास कालोनी नं0-03 थाना कल्यानपुर में भर्ती कराया जहाँ से डिसचार्ज होने के बाद आज हम लोग मयंक के पास आये थे ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त -**

1. पवन उर्फ लाली पुत्र श्री ब्रज बहादुर नि0 नीबरी थाना बिठौली इटावा हाल पता सतर्तेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया
2. विवेक बाजपेई उर्फ ईशू पुत्र श्री राम कुमार बाजपेई नि0 खोरई थाना सिरसा गंज जिला फिरोजाबाद हाल पता सतर्तेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया
3. मयंक तिवारी पुत्र अनिल तिवारी उर्फ गुड्डन तिवारी नि0 करावली थाना बिठौली जिला इटावा

**पुलिस टीम-** प्रथम टीम श्री सत्येंद्र यादव प्रभारी एसओजी व सर्विलांस मय टीम ।

**द्वितीय टीम-** श्री मदन गोपाल गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना सहसो जनपद इटावा ।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**

**जनपद इटावा ।**